



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 5—जनवरी 11, 2013 (पौष 15, 1934)  
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 5—JANUARY 11, 2013 (PAUSA 15, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

## [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

सं. आरएस/6/4/2012/120-कार्मिक--श्री वीरैय्या कोन्डुरी, जिन्हें परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति के अध्यक्ष (श्री सीताराम येचुरी) के व्यक्तिगत स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, की सेवाएं 30 अगस्त, 2012 के अपराह्न से समाप्त की जाती हैं।

सुभा चन्द्रशेखर, अधिशासी अधिकारी

(एक वर्ष की परीक्षा अवधि सहित) या अगले आदेशों के जारी होने तक, जो भी पहले हो, उप-निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर.के. जैन, अवर सचिव

सं. ए-35013/1/2011-(प्रशासन)--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में श्री सुनील कुमार अग्रवाल को वेतन बैंड-3 के वेतनमान 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 6,600/- रु. में संविदा आधार पर दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए (एक वर्ष की परीक्षा अवधि सहित) जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या अगले आदेशों के जारी होने तक, जो भी पहले हो, उप-निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर.के. जैन, अवर सचिव

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 दिसम्बर 2012

सं. ए-35013/1/2011-(प्रशासन)--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में डॉ. उदय कुमार सिंह, को वेतन बैंड-3 के वेतनमान 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 6,600/- रु. में संविदा आधार पर दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए

सं. ए-35013/1/2012-(प्रशासन)--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय (एन.एस.सी.एस.) में श्री सुमित बजाज, को वेतनमान 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 5,400/- रु. (वेतन बैंड-3) में

संविदा आधार पर दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए (एक वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि सहित) या अगले आदेशों के जारी होने तक, जो भी पहले हो, सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर.के. जैन, अवर सचिव

#### भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 नवम्बर 2012

सं. 181/11/2012--सक्षम प्राधिकारी, एतद्द्वारा श्री सुब्रत बंदोपाध्याय, भारत निर्वाचन आयोग में वैयक्तिक सहायक को दिनांक 01.01.2013 से अगले आदेशों तक, पी.बी.-2, रु. 9,300--34,800/- तदनुसार ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में नियमित आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए.एन. दास, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

सं. ए-19/जी-ए/112--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.09.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14/7/2012-ई.ओ (एम.एम. 1) के अनुसरण में तथा पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य पालन विभाग के दिनांक 27.11.2012 के कार्यालय आदेश सं. 19011/25/2011-प्रशा. द्वारा कार्यमुक्त होने के उपरांत सुश्री जयश्री एम. जी. आई. एस.एस. 1998 को दिनांक 30.11.2012 (अपराह्न) से प्रतिनियुक्ति के आधार पर वेतन बैंड-4 (रु. 37,400--67,000) तदनुसार रु. 8,700/- के ग्रेड वेतन में 30.11.2017 तक पांच वर्षों के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आयोग में निदेशक (सांख्यिकी) के पद पर एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है।

बी. सी. पात्रा, अवर सचिव

#### विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2012

सं. ए-38012/07/2012-प्रशा. IV (वि.का.)--अधिवर्षिता की आयु होने पर, श्री आर.एल. कोली, अपर सचिव दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

आशा सोटा, अवर सचिव

#### गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 2012

सं. आई-14011/10/2012-आईपीएस-1(I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, पुनरीक्षा चयन सूची वर्ष 2001 (01.01.2000 से 31.12.2000 तक की रिक्तियां), 2002 (01.01.2001 से 31.12.2001 तक की रिक्तियां), 2003 (01.01.2002 से 31.12.2002 तक की रिक्तियां), 2004 (01.01.2003 से 31.12.2003

तक की रिक्तियां), 2005 (01.01.2004 से 31.12.2004 तक की रिक्तियां), 2006 (01.01.2005 से 31.12.2005 तक की रिक्तियां), 2007 (01.01.2006 से 31.12.2006 तक की रिक्तियां), 2008 (01.01.2007 से 31.12.2007 तक की रिक्तियां) एवं 2009 (01.01.2008 से 31.12.2008 तक की रिक्तियां) की 12.12.2012 को तैयार की गई उन रिक्त चयन सूचियों को जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने 20.12.2012 को अनुमोदित कर दिया है, जिनमें भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है, को पुनः अधिसूचित करते हैं:--

#### चयन सूची-2001

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
1	2	3
	श्रीमती/श्री	
1.	लालजी शुक्ला	01.07.1955
2.	भोला नाथ सिंह	16.01.1956
3.	ज्ञान सिंह	01.07.1953
4.	विजय शंकर सिंह	22.12.1951
5.	राजेन्द्र प्रसाद सिंह-2	08.10.1953
6.	काशी नाथ सिंह	30.01.1952
7.	राज बहादुर सिंह	02.01.1952
8.	सुग्रीव गिरि	01.01.1955
9.	अखिलेश्वर राम मिश्रा	18.03.1954

#### चयन सूची-2002

1.	प्रमोद कुमार मिश्रा	18.05.1958
2.	सिया राम सरन आदित्य	10.08.1952
3.	सूर्य नाथ सिंह	01.08.1955
4.	बीर बहादुर सिंह	07.03.1951

#### चयन सूची-2003

1.	दीपक शर्मा	31.01.1955
2.	संजय श्रीवास्तव	15.09.1953
3.	राजेश कुमार श्रीवास्तव	01.07.1958
4.	दुर्गा चरण मिश्रा	01.09.1956
5.	सत्येन्द्र वीर सिंह	21.07.1955
6.	राम कृष्ण चतुर्वेदी	01.12.1957
7.	राहुल अस्थाना	19.03.1952
8.	जितेन्द्र सोनकर	20.12.1950

## चयन सूची-2004

1	2	3
	श्रीमती/श्री	
1.	श्रीमती बीना भुकेश	02.01.1954
2.	ओम प्रकाश सांगर	16.07.1955
3.	राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी	01.01.1955

## चयन सूची-2005

1.	राजेश कुमार सिंह राठौर	23.10.1956
2.	मैया दीन कर्णधार	02.01.1955
3.	कृपा शंकर सिंह	25.06.1953
4.	नवनीत कुमार राणा	23.04.1956
5.	प्रकाश त्रिपाठी	03.09.1953
6*	अनिल कुमार दास	05.01.1955
7.*	अरूण कुमार गुप्ता	02.02.1957
8.	विजय कुमार	03.03.1957
9.	जितेन्द्र प्रताप सिंह	30.12.1956
10.	अकरामुल हक	16.07.1951
11.	विजय यादव	01.05.1957
12.	घोलर प्रसाद कनौजिया	01.10.1955
13.	विनोद कुमार दोहरे	30.09.1956

\* क्रम सं. 6 एवं 7 पर दिये गये नामों को उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों के निपटान किये जाने के अध्यक्षीन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

## चयन सूची-2006

1.	राम शंकर	09.10.1953
2.	शैलेन्द्र पति त्रिपाठी	08.11.1953
2A@*	अनिल कुमार दास	05.01.1955
2B@*	अरूण कुमार गुप्ता	02.02.1957
3.	कृष्ण मोहन	03.09.1956
4.	राम स्वरूप	10.01.1954
5.	राम भरोसे	22.01.1953
6.	देवेन्द्र कुमार राय	01.07.1954
7.	गुलाब सिंह	16.03.1955
8.	महेश कुमार मिश्रा	07.08.1957

1	2	3
9.	लक्ष्मी नारायण	30.06.1957
10.	राकेश प्रधान	09.07.1956

@ क्रम सं. 2A एवं 2B पर दिये गये नामों को भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उप-विनियम (5) के द्वितीय उपबंध के अनुसार शामिल किया गया है।

\* क्रम सं. 2A एवं 2B पर दिये गये नामों को उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों के निपटान किये जाने के अध्यक्षीन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

## चयन सूची-2007

0A@*	अनिल कुमार दास	05.01.1955
0B@*	अरूण कुमार गुप्ता	02.02.1957
1*.	उदय प्रताप	01.01.1955
2.	संजय कक्कड़	08.12.1958
3.	सुरेश चन्द पाण्डेय	29.01.1954
4.	अशोक कुमार टंडन	12.10.1954

@ क्रम सं. 0A एवं 0B पर दिये गये नामों को भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उप-विनियम (5) के द्वितीय उपबंध के अनुसार शामिल किया गया है।

\* क्रम सं. 0A, 0B एवं 1 पर दिये गये नामों को उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों के निपटान किये जाने के अध्यक्षीन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

## चयन सूची-2008

0A@*	अरूण कुमार गुप्ता	02.02.1957
0B@*	उदय प्रताप	01.01.1955
1.	देवी प्रसाद श्रीवास्तव	30.03.1958
2.	मदन गोपाल सिंह	02.11.1954
3.	राजेन्द्र सिंह	05.01.1954
4.	अशोक कुमार राघव	08.06.1956
5.	देवेन्द्र कुमार चौधरी	01.11.1956
6.	दलबीर सिंह यादव	08.07.1957
7.&	अजय कुमार सिंह	10.01.1954
8.	राम पाल-1	09.04.1957

1	2	3
9.	प्रेम नारायण	01.01.1957
10.	विरेन्द्र कुमार शेखर	27.04.1957
11.	अजय मोहन शर्मा	07.07.1958

@क्रम संख्या 0A एवं 0B पर दिये गये नामों को भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उप-विनियम (5) के द्वितीय उपबंध के अनुसार शामिल किया गया है।

\*क्रम संख्या 0A एवं 0B पर दिये गये नामों को उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों के निपटान किये जाने के अध्यक्षीन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

&क्रम संख्या 7 पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध अपराधिक मामले के निपटान किये जाने के अध्यक्षीन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

चयन सूची-2009		
0A@*	अरूण कुमार गुप्ता	02.02.1957
0B@*	उदय प्रताप	01.01.1955
1.	अरूण कुमार सिंह	05.09.1956
2.	विजय कुमार दीक्षित	19.06.1956
2A@&	अजय कुमार सिंह	10.01.1954
3.	ज्ञानेश्वर तिवारी	30.06.1959
4.	शिव सागर सिंह	01.07.1957
5.	विरेन्द्र बहादुर सिंह	12.05.1955
6.	रतन कुमार श्रीवास्तव	05.08.1957
7.	अनिल कुमार जैन	10.07.1955
8.	सैयद वसीम अहमद	24.06.1955
9.	सुनील चन्द्र बाजपाई	15.04.1955
10.	योगेश्वर सिंह	01.07.1957
11.*	डॉ. तहसीलदार सिंह	22.01.1956
12.	ओंकार सिंह	01.03.1959
13.	अशोक कुमार शुक्ला	28.09.1956
14.	गोविन्द अग्रवाल	22.08.1956

@क्रम संख्या 0A, 0B एवं 2A पर दिये गये नामों को भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उप-विनियम (5) के द्वितीय उपबंध के अनुसार शामिल किया गया है।

\*क्रम संख्या 0A, 0B एवं 11 पर दिये गये नामों को उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों के निपटान किये जाने के अध्यक्षीन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

&क्रम संख्या 2A पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध अपराधिक मामले के निपटान किये जाने के अध्यक्षीन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

2. यह अधिसूचना भारत सरकार द्वारा पूर्व में अधिसूचित अधिसूचना संख्या आई-14011/23/2003-आई.पी.एस-1 दिनांक 11.02.2004, आई-14011/19/2005-आई.पी.एस-1 (I) दिनांक 10.02.2006, आई-14011/15/2007-आई.पी.एस-1 (I) दिनांक 01.07.2008, आई-14011/5/2009-आई.पी.एस-1 (I) दिनांक 07.12.2009 और अन्य कोई इससे संबंधित चयन सूची अधिसूचना के अधिग्रहण में जारी की जा रही है।

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

सं. आई-14011/10/2012-आईपीएस-1 (II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्तियों को, जो कि पहले से ही नियुक्त हैं तथा जिन्हें भारतीय पुलिस सेवा का उत्तर प्रदेश संवर्ग आवंटित है, पुनः अधिसूचित करते हैं जिनकी रिक्तियां भारत सरकार द्वारा पुनरीक्षा चयन सूची वर्ष 2001 (01.01.2000 से 31.12.2000 तक की रिक्तियां), 2002 (01.01.2001 से 31.12.2001 तक की रिक्तियां), 2003 (01.01.2002 से 31.12.2002 तक की रिक्तियां), 2004 (01.01.2003 से 31.12.2003 तक की रिक्तियां), 2005 (01.01.2004 से 31.12.2004 तक की रिक्तियां), 2006 (01.01.2005 से 31.12.2005 तक की रिक्तियां), 2007 (01.01.2006 से 31.12.2006 तक की रिक्तियां), 2008 (01.01.2007 से 31.12.2007 तक की रिक्तियां) एवं 2009 (01.01.2008 से 31.12.2008 तक की रिक्तियां) के लिए निर्धारित की गई थीं तथा यह नियुक्तियां उनके नाम के सम्मुख अंकित नियुक्ति की तिथि से प्रभावी होंगी :-

#### चयन सूची-2001

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1	2	3
	श्रीमती/श्री	
1.	लालजी शुक्ला	11.03.2004
2.	भोला नाथ सिंह	11.02.2004
3.	ज्ञान सिंह	11.02.2004
4.	विजय शंकर सिंह	11.02.2004
5.	राजेन्द्र प्रसाद सिंह-2	11.02.2004
6.	काशी नाथ सिंह	11.02.2004
7.	राज बहादुर सिंह	11.02.2004
8.	सुग्रीव गिरि	07.06.2005
9.	अखिलेश्वर राम मिश्रा	11.02.2004

## चयन सूची-2002

1	2	3
1.	प्रमोद कुमार मिश्रा	11.02.2004
2.	सिया राम सरन आदित्य	11.02.2004
3.	सूर्य नाथ सिंह	11.02.2004
4.	बीर बहादुर सिंह	11.02.2004

## चयन सूची-2003

1.	दीपक शर्मा	11.02.2004
2.	संजय श्रीवास्तव	11.02.2004
3.	राजेश कुमार श्रीवास्तव	11.02.2004
4.	दुर्गा चरण मिश्रा	11.02.2004
5.	सत्येन्द्र वीर सिंह	11.02.2004
6.	राम कृष्ण चतुर्वेदी	11.02.2004
7.	राहुल अस्थाना	11.02.2004
8.	जितेन्द्र सोनकर	11.02.2004

## चयन सूची-2004

1.	श्रीमती बीना भुक्श	10.02.2006
2.	ओम प्रकाश सागर	10.02.2006
3.	राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी	10.02.2006

## चयन सूची-2005

1.	राजेश कुमार सिंह राठौर	10.02.2006
2.	मैया दीन कर्णधार	10.02.2006
3.	कृपा शंकर सिंह	10.02.2006
4.	नवनीत कुमार राणा	01.07.2008
5.	प्रकाश त्रिपाठी	10.02.2006
6.	विजय कुमार	10.02.2006
7.	जितेन्द्र प्रताप सिंह	10.02.2006
8.	अकरामुल हक	10.02.2006
9.	घोलर प्रसाद कनौजिया	10.02.2006
10.	विनोद कुमार दोहरे	10.02.2006

## चयन सूची-2006

1.	राम शंकर	01.07.2008
2.	शैलेन्द्र पति त्रिपाठी	01.07.2008

1	2	3
3.	कृष्ण मोहन	10.02.2006
4.	राम स्वरूप	01.07.2008
5.	राम भरोसे	01.07.2008
6.	देवेन्द्र कुमार राय	01.07.2008
7.	गुलाब सिंह	01.07.2008
8.	महेश कुमार मिश्रा	01.07.2008
9.	लक्ष्मी नारायण	01.07.2008
10.	राकेश प्रधान	01.07.2008

## चयन सूची-2007

1.	संजय कक्कड़	01.07.2008
2.	सुरेश चन्द पाण्डे	01.07.2008
3.	अशोक कुमार टंडन	01.07.2008

## चयन सूची-2008

1.	मदन गोपाल सिंह	07.12.2009
2.	राजेन्द्र सिंह	07.12.2009
3.	अशोक कुमार राघव	07.12.2009
4.	देवेन्द्र कुमार चौधरी	07.12.2009
5.	दलबीर सिंह यादव	07.12.2009
6.	राम पाल-1	07.12.2009
7.	प्रेम नारायण	07.12.2009
8.	विवेन्द्र कुमार शेखर	07.12.2009
9.	अजय मोहन शर्मा	07.12.2009

## चयन सूची-2009

1.	अरूण कुमार सिंह	01.07.2008
2.	विजय कुमार दीक्षित	07.12.2009
3.	ज्ञानेश्वर तिवारी	07.12.2009
4.	विवेन्द्र बहादुर सिंह	07.12.2009
5.	रतन कुमार श्रीवास्तव	07.12.2009
6.	सैयद वसीम अहमद	07.12.2009
7.	सुनील चन्द्र बाजपाई	07.12.2009
8.	योगेश्वर सिंह	07.12.2009
9.	ओंकार सिंह	07.12.2009
10.	अशोक कुमार शुक्ला	07.12.2009
11.	गोविन्द अग्रवाल	07.12.2009

2. उपर्युक्त परिच्छेद 1 के अन्तर्गत सारणियों में उल्लिखित अधिकारियों की नियुक्तियों को पुनः अधिसूचित करने हेतु यह अधिसूचना भारत सरकार द्वारा पूर्व में अधिसूचित अधिसूचना संख्या आई-14011/23/2003-आई.पी.एस-1 दिनांक 11.02.2004 एवं 11.03.2004, आई-14011/19/2005-आई.पी.एस-1 (II) दिनांक 10.02.2006, आई-14011/15/2007-आई.पी.एस-1 (II) दिनांक 01.07.2008, आई-14011/5/2009-आई.पी.एस-1 (II) दिनांक 07.12.2009 और अन्य कोई इससे संबंधित नियुक्ति अधिसूचना के अधिग्रहण में जारी की जा रही है।

3. राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	चयन सूची वर्ष
	श्रीमती/श्री	
1.	विजय यादव	2005
2.	देवी प्रसाद श्रीवास्तव	2008
3.	शिव सागर सिंह	2009
4.	अनिल कुमार जैन	2009

4. परिच्छेद 3 के नीचे दी गई सारणी के अन्तर्गत दिये गये अधिकारियों की नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 2012

सं. आई-14011/10/2012-आईपीएस-1(III)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने 20.12.2012 को चयन समिति की दिनांक 12.12.2012 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2009-ए, 2010 एवं 2011 की उन चयन सूचियों को अनुमोदित कर दिया है, जिनमें भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग में क्रमशः 10, 39 एवं 13 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :--

चयन सूची-2009-ए

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
	(सर्वश्री)	
0A. @*	अरुण कुमार गुप्ता	02.02.1957
0B. @*	उदय प्रताप	01.01.1955

1	2	3
0C. @&	अजय कुमार सिंह	10.01.1954
1.*	वजीह अहमद	13.02.1957
1A. @*	डॉ. तहसीलदार सिंह	22.01.1956
2.	राम बहादुर	11.02.1955
3.	उदय शंकर जायसवाल	24.08.1957
4.	शरद सचान	27.09.1959
5.	राकेश चन्द्र साहू	03.04.1958
6.	जितेन्द्र कुमार शाही	15.05.1957
7.	जवाहर	11.06.1958
8.	डॉ. शिव नारायण भारद्वाज	01.11.1955
9.	डॉ. उमेश चन्द्र श्रीवास्तव	01.07.1957
10.	दिनेश चन्द्र	30.10.1956

@ क्रम सं. 0A, 0B, 0C, एवं 1A पर दिए गए नामों को भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5(5) के द्वितीय उपबंध के अंतर्गत शामिल किया गया है।

\*क्रम सं. 0A, 0B, 1 एवं 1A पर दिए गए नामों को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक मामलों के निपटान के अध्यक्षीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

& क्रम सं. 0C पर दिए गए नाम पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामले के निपटान के अध्यक्षीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

चयन सूची-2010

0A. @*	अरुण कुमार गुप्ता	02.02.1957
0B. @*	उदय प्रताप	01.01.1955
0C. @&	अजय कुमार सिंह	10.01.1954
0D*	वजीह अहमद	13.02.1957
0E @*	डा. तहसीलदार सिंह	22.01.1956
1.	अनिल कुमार राय	14.11.1961
2.	सुरेन्द्र कुमार वर्मा	18.01.1962
3.	राजेन्द्र प्रसाद सिंह यादव	10.07.1957
4.	विजय भूषण	15.04.1961
5.	राम बोध	13.03.1958
6.	कवीन्द्र प्रताप सिंह	24.08.1962
7.	सुनील कुमार सक्सेना	15.12.1958

1	2	3
8.	सुभाष सिंह बघेल	15.05.1961
9.	राकेश शंकर	08.06.1963
10.&	जय प्रकाश सिंह	25.06.1959
11.	उमेश कुमार श्रीवास्तव	05.07.1959
12.	सत्येन्द्र कुमार सिंह	01.01.1964
13.	रतन कान्त पाण्डेय	10.03.1961
14.	विक्रमादित्य सचान	08.08.1958
15.*	जितेन्द्र कुमार शुक्ला	30.06.1961
16.	मृगेन्द्र सिंह	21.05.1959
17.	पीयूष श्रीवास्तव	22.04.1961
18.	सत्य भूषण पाठक	27.01.1956
19.	दिनेश चन्द्र दुबे	01.07.1961
20.	विनय कुमार यादव	30.06.1962
21.	हीरा लाल	04.08.1962
22.*	राम किशोर	20.10.1957
23.	श्रीकान्त सिंह	15.01.1956
24.	अशोक कुमार-II	30.06.1958
25.	संजय कुमार-I	30.11.1962
26.	अरविन्द सेन	13.01.1961
27.	कैलाश नाथ मिश्रा	14.08.1957
28.	शिव शंकर सिंह	11.01.1963
29.	दिनेश पाल सिंह	30.01.1963
30.	ओम प्रकाश श्रीवास्तव	01.01.1959
31.	कृपा शंकर सिंह	01.11.1956
32.	राकेश सिंह	07.04.1965
33.	विरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव	06.04.1960
34.	उमेश कुमार सिंह	27.04.1959
35.	राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	15.08.1960
36.	राजेश कुमार पाण्डेय	15.06.1961
37.	राजू बाबू सिंह	02.04.1957
38.	विशंभर दयाल शुक्ला	30.05.1959
39.	सुश्री श्रीपर्णा गांगुली	29.04.1961

@ क्रम सं. 0A, 0B, 0C, 0D एवं 0E पर दिए गए नामों को भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5(5) के द्वितीय उपबंध के अंतर्गत शामिल किया गया है।

\*क्रम सं. 0A, 0B, 0D, 0E एवं 15 पर दिए गए नामों को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक मामलों के निपटान के अध्यक्षीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

& क्रम सं. 0C एवं 10 पर दिए गए नामों को उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के निपटान के अध्यक्षीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

#### चयन सूची-2011

1	2	3
	श्रीमती/श्री	
1.&	महेन्द्र पाल सिंह	01.07.1957
1A.@*	अरुण कुमार गुप्ता	02.02.1957
1B. @*	उदय प्रताप	01.01.1955
1C .@&	अजय कुमार सिंह	10.01.1954
1D.@*	वजीह अहमद	13.02.1957
1E. @*	डॉ. तहसीलदार सिंह	22.01.1956
1F.@&	जय प्रकाश सिंह	25.06.1959
1G.@*	जितेन्द्र कुमार शुक्ला	30.06.1961
2.*	बलि करन सिंह यादव	07.08.1959
3.	श्रीमती पूनम श्रीवास्तव	28.12.1963
4.	सलिक राम	31.01.1958
5.	राम लाल वर्मा	11.05.1963
6.	अनिल कुमार	10.08.1963
7.	हरीश कुमार	10.11.1959
8.	हरि नारायण सिंह	17.02.1959
9.	दीपक कुमार भट्ट	17.09.1957
10.	दिलीप कुमार	28.06.1961
11.	ललित कुमार सिंह	19.01.1959
12.	राजेश कृष्ण	30.05.1964
13.	कृष्ण बहादुर सिंह	01.02.1961

@ क्रम सं. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F एवं 1G पर दिए गए नामों को भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5(5) के द्वितीय उपबंध के अंतर्गत शामिल किया गया है।

\*क्रम सं. 1A, 1B, 1D, 1E, 1G एवं 2 पर दिए गए नामों को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक मामलों के निपटान के अध्यक्षीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

& क्रम सं. 1, 1C एवं 1F पर दिए गए नामों को उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के निपटान के अध्यक्षीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 2012

सं. आई-14011/10/2012-आईपीएस-1(IV)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं :-

चयन सूची-2009-ए		
1	2	3
	(सर्वश्री)	
1.	राम बहादुर	11.02.1955
2.	उदय शंकर जायसवाल	24.08.1957
3.	शरद सचान	27.09.1959
4.	राकेश चन्द्र साहू	03.04.1958
5.	जितेन्द्र कुमार शाही	15.05.1957
6.	जवाहर	11.06.1958
7.	डॉ. शिव नारायण भारद्वाज	01.11.1955
8.	डॉ. उमेश चन्द्र श्रीवास्तव	01.07.1957
9.	दिनेश चन्द्र	30.10.1956
चयन सूची-2010		
1.	अनिल कुमार राय	14.11.1961
2.	सुरेन्द्र कुमार वर्मा	18.01.1962
3.	राजेन्द्र प्रसाद सिंह यादव	10.07.1957
4.	विजय भूषण	15.04.1961
5.	राम बोध	13.03.1958
6.	कवीन्द्र प्रताप सिंह	24.08.1962

1	2	3
7.	सुनील कुमार सक्सेना	15.12.1958
8.	सुभाष सिंह बघेल	15.05.1961
9.	राकेश शंकर	08.06.1963
10.	उमेश कुमार श्रीवास्तव	05.07.1959
11.	सत्येन्द्र कुमार सिंह	01.01.1964
12.	रतन कान्त पाण्डेय	10.03.1961
13.	विक्रमादित्य सचान	08.08.1958
14.	मृगेन्द्र सिंह	21.05.1959
15.	पीयूष श्रीवास्तव	22.04.1961
16.	सत्य भूषण पाठक	27.01.1956
17.	दिनेश चन्द्र दुबे	01.07.1961
18.	विनय कुमार यादव	30.06.1962
19.	हीरा लाल	04.08.1962
20.	राम किशोर	20.10.1957
21.	श्रीकान्त सिंह	15.01.1956
22.	अशोक कुमार-II	30.06.1958
23.	संजय कुमार-I	30.11.1962
24.	अरविन्द सेन	13.01.1961
25.	कैलाश नाथ मिश्रा	14.08.1957
26.	शिव शंकर सिंह	11.01.1963
27.	दिनेश पाल सिंह	31.01.1963
28.	ओम प्रकाश श्रीवास्तव	01.01.1959
29.	कृपा शंकर सिंह	01.11.1956
30.	राकेश सिंह	07.04.1965
31.	विवेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव	06.04.1960
32.	उमेश कुमार सिंह	27.04.1959
33.	राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	15.08.1960
34.	राजेश कुमार पाण्डेय	15.06.1961
35.	राजू बाबू सिंह	02.04.1957
36.	विशंभर दयाल शुक्ला	30.05.1959
37.	सुश्री श्रीपर्णा गांगुली	29.04.1961



## चयन सूची-2011

दिनांक 17 दिसम्बर 2012

1	2	3
	(सर्वश्री)	
1.	श्रीमती पूनम श्रीवास्तव	28.12.1963
2.	सलिक राम	31.01.1958
3.	राम लाल वर्मा	11.05.1963
4.	अनिल कुमार	10.08.1963
5.	हरीश कुमार	10.11.1959
6.	हरि नारायण सिंह	17.02.1959
7.	दीपक कुमार भट्ट	17.09.1957
8.	दिलीप कुमार	28.06.1961
9.	ललित कुमार सिंह	19.01.1959
10.	राजेश कृष्ण	30.05.1964
11.	कृष्ण बहादुर सिंह	01.02.1961

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

सं. 13017/43/2012-अ.भा.से.(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश सरकारों की सहमति से, केन्द्रीय सरकार ने श्री पंकज यादव, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एचवाई : 01) की हरियाणा संवर्ग से उत्तर प्रदेश संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अंतर संवर्ग प्रतिनियुक्ति को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 13017/09/2012-अ.भा.से.(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राजस्थान एवं कर्नाटक सरकारों की सहमति के केन्द्रीय सरकार सुश्री रागप्रिया आर., भा.प्र.से. (केएन : 11) के साथ विवाह हो जाने के आधार पर श्री आर. वेंकटेश कुमार, भा.प्र.से. (आरजे : 10) का राजस्थान संवर्ग से कर्नाटक संवर्ग में एतद्द्वारा स्थानान्तरण करती है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 13017/39/2012-अ.भा.से.-I--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नागालैंड और राजस्थान सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार श्री विश्व मोहन शर्मा, भा.प्र.से. (नागालैंड : 10) को सुश्री सुदीप कौर, भा.प्र.से. (राजस्थान : 10) के साथ विवाह के आधार पर नागालैंड संवर्ग से राजस्थान संवर्ग में एतद्द्वारा स्थानान्तरण करती है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

सं. 6/2012-ई.एस.--भारत के राष्ट्रपति, सुश्री रेणु अमिताभ, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर-1991) को दिनांक 30.11.2012 (अपराह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, वेतन बैंड-4 (37,400--67,000/- रु.) + ग्रेड वेतन 8,700/- रु. में प्रतिनियुक्ति आधार पर भारत-वित्त आसूचना एकक, राजस्व विभाग में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. एन. सिंह, अवर सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

शुद्धिपत्र

सं. 2/2012 (फा.सं. ए-32012/2/2001-प्रशा.-VI)--दिनांक 09 मार्च, 2012 को जारी हुई इस विभाग की अधिसूचना सं. 2012 की 02 (फा. सं. ए-32012/2/2001-प्रशा.-VI) में श्री रामअवतार वर्मा (85072) के पदनाम को आयकर उपायुक्त के स्थान पर संयुक्त आयकर आयुक्त पढ़ जाए।

आनन्द उपाध्याय, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

सं. ए-12011/1/2012-प्रशा.-2--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.12.2012 के आदेश सं. 18/26/2012-ईओ (एसएम-1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री प्रभात कुमार मिश्रा, भा.प्र.से. (पं. बंगाल : 93) को 05 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की पांच वर्ष की शेष अवधि के लिए अर्थात् 24.05.2014 तक आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12011/1/2012-प्रशा.-2--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.12.2012 के आदेश सं. 18/25/2012-ईओ (एसएम-1) के

अनुसरण में, राष्ट्रपति, डॉ. (सुश्री) उषा टाइटस, भा.प्र.से. (केरल : 93) को 05 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की पांच वर्ष की शेष अवधि के लिए अर्थात् 10.10.2015 तक आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2012

सं. ए-22011/1/2012-प्रशा.-1ए--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (2011 बैच) के निम्नलिखित कनिष्ठ समयमान स्तर के अधिकारियों को 5,400/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित, 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 में, दिनांक 19 नवम्बर, 2012 (पूर्वाह्न) अथवा अगले आदेश तक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री सैयद जुबैर हुसैन नकवी	सहायक निदेशक
2.	श्री विवेक चौधरी	सहायक निदेशक

ईप्सिता मित्रा, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 2012

सं. 9/1/2011-डीआरटी (खण्ड)--केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित अधिकारियों को 7,600/- रुपए और 6,600/- रुपए के ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100/- रुपए के पे बैंड-3 में, प्रतिनियुक्ति आधार पर प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विभिन्न ऋण वसूली अधिकरणों में क्रमशः पंजीकार, सहायक पंजीकार और वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त करती हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद	तैनाती	प्रतिनियुक्ति की अवधि से	तक
(श्री/श्रीमती)					
1.	के. केशव कुमार	पंजीकार	चेन्नै III	05.12.2012	04.12.2015
2.	अमित रॉय चौधरी	पंजीकार	कटक	30.11.2012	29.11.2015
3.	के. सिरनजीवलु	सहायक पंजीकार	चेन्नै III	03.12.2012	02.12.2015
4.	सी. बी. डेनियल	वसूली अधिकारी	जबलपुर	03.08.2012	02.08.2015

राजीव शर्मा, अवर सचिव

सं. 9/1/2011-डीआरटी (खण्ड)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को 7,600/- रु. के ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड-3 में, नीचे यथा उल्लिखित ऋण वसूली अधिकरणों में पदभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेशों

तक विभिन्न ऋण वसूली अधिकरणों में पंजीकार के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद	तैनाती	तिथि से (दिवस/मास/वर्ष)
1.	श्री के. गुरुमूर्ति	पंजीकार	चेन्नै I	29.10.2012 (पूर्वाह्न)
2.	श्री रमण कुमार गौड़	पंजीकार	दिल्ली II	01.11.2012 (पूर्वाह्न)

राजीव शर्मा, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

सं. ए-12011/4/2012-एच.आर.-II--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 नवम्बर, 2012 के आदेश सं. 4/14/2011-सीएस-I(डी) के अनुसरण में राष्ट्रपति महोदय केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अवर सचिव श्री मुकेश भारद्वाज (सीएसएल सं. 5109) को डीओपीटी के उपर्युक्त आदेश में निहित निबंधन एवं शर्तों के अधधीन 15.11.2012 के पूर्वाह्न से प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, उर्वरक विभाग में तदर्थ आधार पर पे-बैंड रुपए 15,600--39,100/- में रुपए 7,600/- के ग्रेड-पे में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रवर ग्रेड (उप सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सौमेन्द्र चंदा, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

सं. ए-12011/4/2012-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06.12.2012 के आदेश सं. 5/9/2012-सी.एस.-I(यू) के अनुसरण में उपभोक्ता मामले विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग (सी.एस.एल. 7722) के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री डी. सी. देवगुण को, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 पूर्वाह्न से दिनांक 31.05.2013 की अवधि तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपभोक्ता मामले विभाग में 15,600--39,100/- रुपए के वेतनमान (पी.बी.-3) और 6,600/- रुपए ग्रेड वेतन में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव ग्रेड-I के रूप में पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति ग्रेड में अनिश्चितकाल के लिए बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के लिए वरिष्ठता आदि का दावा करने को कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

3. इसके अतिरिक्त, यह नियुक्ति, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (प्रधान पीठ) नई दिल्ली में लम्बित ओ.ए. संख्या 1083/2007 में दिए गए अंतिम निर्णय और इससे संबंधित अन्य मामलों में, ओ.ए. संख्या

1083/2007 के अतिरिक्त, किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अन्य आदेश के अंतिम परिणाम के अध्वधीन होगी।

एम. ए. चौधरी, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

सं. ए-12023/01/2011-स्थापना--राष्ट्रपति, डॉ. रमेश गोला को सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से उनके चयन के परिणामस्वरूप वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में वैज्ञानिक 'सी' के पद पर ग्रेड पे रुपए 6,600/- सहित पे-बैंड-3 में रुपए 15,600--39,100/- में दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति भारत सरकार की नई पेंशन योजना के अधीन शासित होगी।

2. वह एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

सं. ए-12025/182/2009-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. (श्रीमती) भगत तृप्ति अशोकराव को दिनांक 17 मई, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15,600--39,100/- रुपए + 5,400/- रुपए ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. (श्रीमती) भगत तृप्ति अशोकराव को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. (श्रीमती) भगत तृप्ति अशोकराव नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगी।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

सं. ए-12025/61/2010-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. नालिनी कौशिक को दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15,600--39,100/- रुपए + 5,400/- रुपए ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. नालिनी कौशिक को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. नालिनी कौशिक नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगी।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

सं. ए-12025/263/2009-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. राखी महेश्वरी को दिनांक 26 सितम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 15,600--39,100/- रुपए + 5,400/- रुपए

ग्रेड वेतन (पीबी-3) के वेतनमान में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. राखी महेश्वरी को सीजीएचएस, जबलपुर के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगी।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

सं. ए-12025/178/2009-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. सुचित्रा सहगल को दिनांक 27 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15,600--39,100/- रुपए + 5,400/- रुपए ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. सुचित्रा सहगल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. सुचित्रा सहगल नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परीक्षा की अवधि पर रहेंगी।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

दिनांक 20 दिसम्बर 2012

सं. ए-12025/104/2010-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. पद्मिनी को दिनांक 10 मई, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15,600--39,100/- रुपए + 5,400/- रुपए ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. पद्मिनी को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. पद्मिनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगी।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय  
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 2012

सं. 32013/01/2012-स्थापना-I--राष्ट्रपति द्वारा सीएसएस निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को पे बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए) + 6,600/- रुपए ग्रेड पे पर, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में अवर सचिव के पद पर पूर्ण्यता तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है जो उनके नाम के सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाह्न से लागू होता है :-

क्र. सं.	नाम	विभाग जहां पर कार्यरत थे	सीएसएस सं.	नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4	5
	(सुश्री/सर्वश्री)			
1.	भीम सिंह	कृषि एवं सह. विभाग	7503	01.11.2012
2.	राम कुमार	वाणिज्य विभाग	7276	02.11.2012

1	2	3	4	5
	(सुश्री/सर्वश्री)			
3.	अमरेश कुमार झा	खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग	7172	02.11.2012
4.	राजकुमार	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	7476	05.11.2012

2. सीएसएस (अवर सचिव) ग्रेड-I पर पदोन्नति 31.05.2013 तक की अवधि के लिए अथवा जब तक नियमित आधार पर पदों को भरा नहीं जाता अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हों, पूर्णतया तदर्थ आधार पर है। उपरोक्त तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों पर की जाती है :--

- तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक जारी रखने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल करने अथवा सीएसएस के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती।
- तदर्थ नियुक्ति को इस संबंध में बिना किसी कारण के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
- अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर प्रदान की गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा।
- जिन अधिकारियों ने सीएसएस कैडर के लिए प्रशिक्षण योजना में शामिल अनिवार्य 'घ' स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, उन्हें इस विभाग द्वारा तैयार किए गए नामांकन के अनुसार उपरोक्त प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति, सीएटी, नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओ.ए. संख्या 1083/2007 के अंतिम परिणाम तथा ओ. ए. सं. 1083/2007 के अलावा अन्य संबंधित मामलों में समक्ष न्यायालय के किसी अन्य आदेश के अधीन होगी।

संदीप कुमार, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

सं. 2-15/2010-मा. (प्रशासन)--राष्ट्रपति, डॉ. अन्नड़ा भूषण कार को कृषि मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीन भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण मुम्बई में 5,400/- रुपये के ग्रेड वेतन (पे. बैंड-3) 15,600--39,100/- रुपये के वेतनमान में 14 सितम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से अस्थायी क्षमता में अगले आदेश तक के लिए मात्स्यिकी वैज्ञानिक (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

सं. 12-3/2005-प्रशा.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. बी. एन. त्रिपाठी को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीनस्थ कार्यालय सी सी एस राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत (यू.पी.) में 10,000/- रुपये के ग्रेड वेतन (पे बैंड-4) 37,400--67,000/- रुपये के वेतनमान में अल्पकालिक संविदा आधार पर 03 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेश तक के लिए जो भी पहले हो, निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

परमजित सिंह, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

सं. 19011/6/2012-प्रशासन-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 नवम्बर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/11/2011 सी एस आई (यू) के अनुसरण में राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के तहत इस विभाग में अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में कार्यरत अवर सचिवों को प्रथम जुलाई से उनके नाम के सामने दी गई चयन सूची वर्ष से नियमित आधार पर अवर सचिव नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	सी.एस. एल.सं.	चयन सूची वर्ष
1.	श्री देबव्रत बनर्जी	6212/1995	2009
2.	श्री एस. सी. टमटा	6746/2001	2009
3.	श्री के. सी. पात्रा	6760/2001	2009

2. इन अधिकारियों के यू एस एल-2009 में शामिल किये जाने के उपरान्त नियमित आधार पर अवर सचिव ग्रेड में नियुक्त नई दिल्ली के कौट के प्रधान बेंच के मामले में 'पी. एस. भण्डारी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य' टाईटल वाले ओ.ए. संख्या 611/2012 के अन्तिम परिणाम और इससे संबंधित किसी भी मामले में किसी सक्षम न्यायालय के किसी अन्य आदेश के अधीन होगा।

3. उक्त अधिकारी सतर्कता की दृष्टि से मुक्त हैं और ये अधिकारी अपने चयन सूची वर्ष में प्रथम जुलाई से सी एस एस संवर्ग में मौजूद हैं इसलिए वे अपने पद पर बने रहने के हकदार हैं।

आर. एस. जयाल, अवर सचिव

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

सं. 30-7/2010-स्थापना--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित अधिकारियों को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/11/2011-सी.एस.-1(यू), दिनांक 26 नवम्बर, 2012 के द्वारा जारी चयन सूची में नाम आने के फलस्वरूप उन्हें उनके नाम के आगे दर्शाए गए वर्ष से

नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) अधिकारी नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं. एल.सं.	नाम	चयन सूची वर्ष
1. 6402	श्री वी. के. सिंह, अवर सचिव	2009
2. 6742	श्री विजय सिंह, अवर सचिव	2009

2. वर्ष 2009 की चयन सूची में शामिल अधिकारियों की नियमित आधार पर अवर सचिव के ग्रेड में नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिनियम (कैट), पी.बी., नई दिल्ली के ओ. ए. संख्या 611/2012 शीर्षक श्री पी. एस. भंडारी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के अंतिम निर्णय और अंतरिम आदेश दिनांक 24.02.2012 और इससे जुड़े किसी अन्य सक्षम न्यायालय के अन्य आदेशों के अधधीन होगी।

ए. प्रभाकरन, निदेशक

#### अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

सं. ए-53011/7/2012-स्था.--राष्ट्रपति, राज्य सभा में नियमित वरिष्ठ कार्यकारी सहायक, श्री खादर शरीफ को दिनांक 01 नवम्बर, 2012 से अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, भारत सरकार के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के सहायक निजी सचिव, श्री खादर शरीफ की नियुक्ति अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के कार्यकाल के साथ सहकालिक आधार पर अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की जाती है।

3. श्री खादर शरीफ, सहायक निजी सचिव को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03 सितम्बर, 2008 के का. ज्ञा. सं. 2/22(ख)/2008-स्था. (वेतन-II) तथा 28 मई, 2009 के का. ज्ञा. सं. 2/23/2008-स्था. (वेतन-II) के अनुरूप अधिकतम 2,000/- रुपये प्रतिमाह के अध्यधीन मूल वेतन के 5% की दर से प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता दिया जा सकता है।

4. इसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

मैत्रेयी राय, उप सचिव

सं. ए-53011/7/2012-स्था.--राष्ट्रपति, राज्य सभा में नियमित वरिष्ठ कार्यकारी सहायक, श्री रामानंद को दिनांक 23 नवम्बर, 2012 से अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, भारत सरकार के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के सहायक निजी सचिव, श्री रामानंद की नियुक्ति अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के कार्यकाल के साथ सहकालिक आधार पर अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की जाती है।

3. श्री रामानंद, सहायक निजी सचिव को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03 सितम्बर 2008 के का. ज्ञा. सं. 2/22(ख)/

2008-स्था. (वेतन-II) तथा 28 मई, 2009 के का. ज्ञा. सं. 2/23/2008-स्था. (वेतन-II) के अनुरूप अधिकतम 2,000/- रुपये प्रतिमाह के अध्यधीन मूल वेतन के 5% की दर से प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता दिया जा सकता है।

4. इसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

मैत्रेयी राय, उप सचिव

सं. ए-53011/7/2012-स्था.--राष्ट्रपति, राज्य सभा में नियमित वरिष्ठ कार्यकारी सहायक, श्री अशरफ करीम को दिनांक 23 नवम्बर, 2012 से अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, भारत सरकार के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के सहायक निजी सचिव, श्री अशरफ करीम की नियुक्ति अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के कार्यकाल के साथ सहकालिक आधार पर अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की जाती है।

3. श्री अशरफ करीम, सहायक निजी सचिव को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03 सितम्बर 2008 के का. ज्ञा. सं. 2/22(ख)/2008-स्था. (वेतन-II) तथा 28 मई, 2009 के का. ज्ञा. सं. 2/23/2008-स्था. (वेतन-II) के अनुरूप अधिकतम 2,000/- रुपये प्रतिमाह के अध्यधीन मूल वेतन के 5% की दर से प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता दिया जा सकता है।

4. इसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

मैत्रेयी राय, उप सचिव

#### संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

सं. ए-11019/2/2007-प्रशासन-II--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग श्री पी. जगवेशन, प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.11.2012 के का. ज्ञा. सं. 3/4/2012-सीएस-II(क) द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव की वर्ष 2011 की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, दिनांक 16.11.2012 से वेतन बैंड-3, (15,600--39,100/- रु. + वेतन ग्रेड 6,600/-रु.) में नियमित आधार पर इस विभाग में प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

निर्मला देव, अवर सचिव

सं. ए-41-10/2011-प्रशासन-II--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध/बेतार अनुश्रवण संगठन में संयुक्त बेतार सलाहकार के पद पर कार्यरत श्री आर. जे. एस. कुशवाहा को 67,000--79,000/- रुपये के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में दिनांक 01.12.2012 से अगले आदेश होने तक बेतार सलाहकार के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

निर्मला देव, अवर सचिव

दिनांक 12 दिसम्बर 2012

सं. 32014/1/2011-प्रशा. II-राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जुलाई, 2012 के का. ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस-II(ए) के द्वारा जोनिंग स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2010 की प्रवर सूची (वरिष्ठता कोटे के प्रति) में से केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के रूप में नियुक्ति हेतु दूरसंचार विभाग में नामांकन के परिणामस्वरूप श्री राजेन्द्र सिंह (सीएसएल सं. 554), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के (तदर्थ) निजी सचिव को दिनांक 30.11.2012 पूर्वाह्न से इस विभाग में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

निर्मला देव, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 2012

सं. 2004/ई(जीआर)-I/1/5--राष्ट्रपति जी निम्नलिखित प्रोबेशनरों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरिंग सेवा में सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
	(सर्वश्री/सुश्री)	
1.	गौरव झा	11.07.2004
2.	राजीव कुमार	26.06.2004
3.	ऋतु सौरभ	26.06.2004
4.	सुशील चन्द्रा	26.06.2004
5.	ए. एन. सिद्धिकी	14.07.2004
6.	हिमाद्री शेखर पात्रा	26.06.2004
7.	अहमद वासी खान	26.06.2004
8.	रोमन रावत	26.06.2004
9.	शशि किरण	26.06.2004
10.	सुमन कुमार तांती	26.06.2004

ममता कंडवाल, संयुक्त निदेशक स्थापना (जी आर)  
(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 2012

सं. ए-32012/5/2012-एमए-राष्ट्रपति, भारतीय तट रक्षक के कमांडेंट संजय अंचलवार को 15,600--39,100/- रु. + जीपी 7,600/-रु. के

वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर, नौवहन महानिदेशालय, मुंबई में दिनांक 03.12.2012 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उप नौवहन महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. शशीकुमार, अवर सचिव

सं. ए-12026/3/2006-एमए-दिनांक 19.06.2012 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में, राष्ट्रपति, डॉ. अमोल भीमराव किताने, आईआरएस (आईटी : 2002) को नौवहन महानिदेशालय में दिनांक 04.06.2012 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उप नौवहन महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. शशीकुमार, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

सं. ए-12026/1/2011-ई-I(बी)--राष्ट्रपति, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.11.2012 के का. ज्ञा. सं. 3/4/2012-सीएस-II (ए) के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) संवर्ग की प्रधान निजी सचिव की वर्ष 2011 की चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, श्री बृज भूषण शर्मा, निजी सचिव, जो वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को इसी मंत्रालय में दिनांक 04.12.2012 से 15,600--39,100/- रुपए के पे बैंड-3 + 6,600/-रुपए के ग्रेड पे में नियमित आधार पर सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

दिनांक 14 दिसम्बर 2012

सं. ए-12022/2/2012-ई-I--राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, सचिवालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.11.2012 के आदेश सं. 1/8/2012-ईओ(एसएम-I) के अनुसरण में डॉ. (सुश्री) टुक टुक कुमार, भा. प्र. से. (पश्चिम बंगाल : 1981) को दिनांक 16.11.2012 (पूर्वाह्न) से 67,000--79,000/- रुपए के एचएजी वेतनमान (3% की वार्षिक वेतनवृद्धि) में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 2012

सं. 21/2012 (फा. सं. ए-32013/15/2012-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी

के श्री एस. डी. दूबे को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उसी सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (मुख्य इंजीनियर/सदस्य सचिव (क्षेत्रीय विद्युत समिति)/सचिव, केन्द्रीय विद्युत बोर्ड) में रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड

वेतन रु. 10,000/- के वेतनमान में, दिनांक 13 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

पी. पी. बोस, अवर सचिव

### जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 2012

सं. 14/2012 (फा. सं. 5/7/2009-प्रशा.--वर्ष 2010 की चयन सूची के लिए सीएसएसएस के निजी सचिव की श्रेणी की चयन सूची में शामिल किए जाने और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके दिनांक 17 जुलाई, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2012-सीएस.-II (ए) के माध्यम से जोनिंग स्कीम के अंतर्गत जल संसाधन मंत्रालय में उन्हें नामित किए जाने पर राष्ट्रपति निम्न अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ पीबी-2 (9,300--34,800/- रुपए) के वेतनमान में जल संसाधन मंत्रालय में नियमित आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	सीएसएल संख्या	पूर्व संवर्ग इकाई	जल संसाधन मंत्रालय में पद भार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्री/श्रीमती			
1.	लिट्टन सोरेन	1552	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	02.08.2012 (पूर्वाह्न)
2.	ईति मिश्रा	571	व्यय	22.08.2012 (पूर्वाह्न)
3.	पी. नटराजन	254	व्यय	31.08.2012 (अपराह्न)
4.	विजय कुमार शर्मा	256	व्यय	31.08.2012 (अपराह्न)
5.	श्रवण कुमार	968	व्यय	31.08.2012 (अपराह्न)
6.	कैलाश चन्द्र	685	विद्युत	31.08.2012 (अपराह्न)
7.	मधुबाला भारद्वाज	134	विद्युत	31.08.2012 (अपराह्न)
8.	सुनीता जलुथ्रा	529	सूचना एवं प्रसारण	27.08.2012 (पूर्वाह्न)
9.	बी. एन. गंडोत्रा	877	सूचना एवं प्रसारण	31.08.2012 (पूर्वाह्न)
10.	चन्द्र शेखर छाबड़ा	899	व्यय	03.09.2012 (पूर्वाह्न)
11.	कंचन बाला मदान	844	डाक	04.09.2012 (पूर्वाह्न)
12.	सुनील कुमार	847	डाक	04.09.2012 (पूर्वाह्न)
13.	एम. के. सागर	987	कृषि	04.09.2012 (अपराह्न)
14.	रचना मेहता	517	कृषि	04.09.2012 (अपराह्न)
15.	अनु रतन	4	गृह मंत्रालय	07.09.2012 (अपराह्न)
16.	महेश कुमार	964	आपूर्ति	14.09.2012 (अपराह्न)
17.	ए. पी. वर्मा	854	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	19.09.2012 (पूर्वाह्न)
18.	सुनीता ठाकुर	306	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन	01.10.2012 (पूर्वाह्न)
19.	जगवीर सिंह	832	व्यय	01.10.2012 (पूर्वाह्न)

एल. पी. शर्मा, अवर सचिव

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 नवम्बर 2012

सं. 1/2(25)/09-एफएस--राष्ट्रपति, श्री एम. राजामन्नार को दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 के पूर्वाह्न से 8,700/- रुपए के ग्रेड पे सहित 37,400--67,000/-(पे बैंड-4) के वेतनमान में निदेशक, गीत और नाटक प्रभाग के पद पर एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा) आधार पर नियुक्त करते हैं।

नीरज कुमार, अवर सचिव

## श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

सं. ए-12034/3/2012-प्रशा.1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.11.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 13/2/2012-ईओ(एमएम-1)

के अनुसरण में तथा कार्मिक विभाग, गोवा सरकार के दिनांक 16.11.2012 के आदेश सं. 7/2/99-पीईआर/पीएफ-III के द्वारा दिनांक 19.11.2012 (अपराह्न) को कार्यमुक्त किए जाने के उपरांत श्री टी. मोहन बालाकृष्णन, आईएएस (एजीएमयूटी : 1996) ने दिनांक 20.11.2012 से 21.11.2012 (पूर्वाह्न) तक की पदभार ग्रहण करने की अवधि के उपरांत दिनांक 21.11.2012 (अपराह्न) से श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

2. राष्ट्रपति, श्री टी. मोहन बालाकृष्णन, आईएएस (एजीएमयूटी : 1996) को श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री कोडिकुनील सुरेश) के निजी सचिव के रूप में निदेशक के समकक्ष (वेतन बैंड-4, 37,400--67,000/- रुपए + वेतन ग्रेड 8,700/- रुपए) पद पर मंत्री के साथ सह-समाप्ति आधार पर अथवा मंत्री महोदय के साथ उनका कार्यकाल समाप्त होने तक अथवा 31.05.2015 तक अर्थात् सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त होने की उनकी तारीख अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

पवन कुमार, अवर सचिव



## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 19th December 2012

No. RS/6/4/2012/120-Perl.—The services of Shri Veeraiah Konduri, who had been appointed as Senior Private Secretary in the personal staff of Chairman, Committee on Transport, Tourism & Culture (Shri Sitaram Yechury), stand terminated w.e.f. the afternoon of 30th August, 2012.

SUBHA CHANDRASHEKAR, Exe. Officer

## NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 20th December 2012

No. A-35013/1/2012-Ad.—The President is pleased to appoint Dr. Uday Kumar Singh as Deputy Director in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- in the National Security Council Secretariat on contract basis with effect from the forenoon of 12th December, 2012, for a period of three years (including one year probation), or until further orders, whichever is earlier.

R. K. JAIN, Under Secy.

No. A-35013/1/2012-Ad.—The President is pleased to appoint Shri Sunil Kumar Agarwal as Deputy Director in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- in the National Security Council Secretariat on contract basis with effect from the forenoon of 14th December, 2012, for a period of three years (including one year probation), extendable upto 5 years, or until further orders, whichever is earlier.

R. K. JAIN, Under Secy.

No. A-35013/1/2012-Ad.—The President is pleased to appoint Shri Sumit Bajaj as Assistant Director in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in the National Security Council Secretariat on contract basis with effect from the forenoon of 13th December, 2012, for a period of three years (including one year probation), or until further orders, whichever is earlier.

R. K. JAIN, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE  
ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 26th November 2012

No. 181/11/2012—The Competent Authority hereby appoints Shri Subrata Bandopadhyay, Personal Assistant in the Secretariat of the Election Commission of India as Private Secretary in the PB-2, Rs. 9,300—34,800/- with corresponding Grade Pay Rs. 4,800/-, on regular basis, w.e.f. 01.01.2013 and until further orders.

A. N. DAS, Under Secy.

New Delhi-110001, the 10th December 2012

No. A-19/G-A/112—In pursuance of DoP&T's OM No. 14/7/2012-EO(MM.I), dated 25.09.2012 and consequent upon having been relieved from the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries vide Office Order No. 19011/25/2011-Admn-I, dated 27.11.2012, Ms. Jayasree M. G., ISS:1998, is hereby appointed as Director (Statistics) in the Commission, in PB-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with corresponding Grade Pay of Rs. 8,700/-, on deputation basis, w.e.f. 30.11.2012 (A/N) for five years upto 30.11.2017 or until further orders, whichever is earlier.

B. C. PATRA, Under Secy.

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

## (DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 30th November 2012

No. A-38012/07/2012-Admn.IV (LA)—On attaining the age of superannuation, Shri R. L. Koli, Additional Secretary, retires from Government Service with effect from the afternoon of 30th November, 2012.

ASHA SOTA, Under Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 21st December 2012

No. I-14011/10/2012-IPS.I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1955, the President is pleased to re-notify the Select List of State Police Service officers of Uttar Pradesh Cadre containing the following names prepared on 12.12.2012 and approved on 20.12.2012 towards filling up of promotion quota vacancies in Uttar Pradesh cadre of IPS under State Police Service category determined by the Government of India for the Review Select Lists of 2001 (vacancies arisen between 01.01.2000 to 31.12.2000), 2002 (vacancies arisen between 01.01.2001 to 31.12.2001), 2003 (vacancies arisen between 01.01.2002 to 31.12.2002), 2004 (vacancies arisen between 01.01.2003 to 31.12.2003), 2005 (vacancies arisen between 01.01.2004 to 31.12.2004), 2006 (vacancies arisen between 01.01.2005 to 31.12.2005), 2007 (vacancies arisen between 01.01.2006 to 31.12.2006), 2008 (vacancies arisen between 01.01.2007 to 31.12.2007), and 2009 (vacancies arisen between 01.01.2008 to 31.12.2008) :—

## SELECT LIST OF 2001

Sl. No.	Name	Date of Birth
1	2	3
1.	S/Shri/Smt. Lalji Shukla	01.07.1955
2.	Bhola Nath Singh	16.01.1956

1	2	3
3.	Gyan Singh	01.07.1953
4.	Vijay Shankar Singh	22.12.1951
5.	Rajendra Prasad Singh-2	08.10.1953
6.	Kashi Nath Singh	30.01.1952
7.	Raj Bahadur Singh	02.01.1952
8.	Sugriv Giri	01.01.1955
9.	Akhileshwar Ram Mishra	18.03.1954

## SELECT LIST OF 2002

1.	Pramod Kumar Mishra	18.05.1958
2.	Sia Ram Saran Aditya	10.08.1952
3.	Surya Nath Singh	01.08.1955
4.	Bir Bahadur Singh	07.03.1951

## SELECT LIST OF 2003

1.	Deepak Sharma	31.01.1955
2.	Sanjay Srivastava	15.09.1953
3.	Rajesh Kumar Srivastava	01.07.1958
4.	Durga Charan Misra	01.09.1956
5.	Satyendra Veer Singh	21.07.1955
6.	Ram Krishna Chaturvedi	01.12.1957
7.	Rahul Asthana	19.03.1952
8.	Jitendra Sonkar	20.12.1950

## SELECT LIST OF 2004

1.	Smt. Beena Bhukesh	02.01.1954
2.	Om Prakash Sagar	16.07.1955
3.	Rajendra Prasad Chaturvedi	01.01.1955

## SELECT LIST OF 2005

1.	Rajesh Kumar Singh Rathore	23.10.1956
2.	Maiya Deen Karandhar	02.01.1955
3.	Kripa Shanker Singh	25.06.1953
4.	Navneet Kumar Rana	23.04.1956
5.	Prakash Tripathi	03.09.1953
6.*	Anil Kumar Dass	05.01.1955
7.*	Arun Kumar Gupta	02.02.1957
8.	Vijay Kumar	03.03.1957

1	2	3
9.	Jitendra Pratap Singh	30.12.1956
10.	Akramul Haq	16.07.1951
11.	Vijay Yadav	01.05.1957
12.	Gholar Prasad Kanaujia	01.10.1955
13.	Vinod Kumar Doharey	30.09.1956

\*Names at Sl. No. 6 & 7 have been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against them.

## SELECT LIST OF 2006

1.	Ram Shankar	09.10.1953
2.	Shailendra Pati Tripathi	08.11.1953
2A@*	Anil Kumar Dass	05.01.1955
2B@*	Arun Kumar Gupta	02.02.1957
3.	Krishna Mohan	03.09.1956
4.	Ram Swaroop	10.01.1954
5.	Ram Bharose	22.01.1953
6.	Devendra Kumar Rai	01.07.1954
7.	Gulab Singh	16.03.1955
8.	Mahesh Kumar Mishra	07.08.1957
9.	Laxmi Narayan	30.06.1957
10.	Rakesh Pradhan	09.07.1956

@Names at Sl. No. 2A and 2B have been included as per the second proviso to Regulation 5(5) of the IPS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

\* Names at Sl. No. 2A and 2B have been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against them.

## SELECT LIST OF 2007

0A@*.	Anil Kumar Dass	05.01.1955
0B@*.	Arun Kumar Gupta	02.02.1957
1*.	Udai Pratap	01.01.1955
2.	Sanjay Kakkar	08.12.1958
3.	Suresh Chand Pandey	29.01.1954
4.	Ashok Kumar Tandon	12.10.1954

@Names at Sl. No. 0A and 0B have been included as per the second proviso to Regulation 5(5) of the IPS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

\* Names at Sl. No. 0A, 0B and 1 have been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against them.

## SELECT LIST OF 2008

1	2	3
0A@*. Arun Kumar Gupta		02.02.1957
0B@*. Udai Pratap		01.01.1955
1.	Devi Prasad Srivastava	30.03.1958
2.	Madan Gopal Singh	02.11.1954
3.	Rajendra Singh	05.01.1954
4.	Ashok Kumar Raghav	08.06.1956
5.	Devendra Kumar Chowdhary	01.11.1956
6.	Dalbir Singh Yadav	08.07.1957
7&.	Ajay Kumar Singh	10.01.1954
8.	Ram Pal-I	09.04.1957
9.	Prem Narayan	01.01.1957
10.	Virendra Kumar Shekhar	27.04.1957
11.	Ajay Mohan Sharma	07.07.1958

@Names at Sl. No. 0A and 0B have been included as per the second proviso to Regulation 5(5) of the IPS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

\* Names at Sl. No. 0A and 0B have been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against them.

& Name at Sl. No. 7 has been included in the list provisionally subject to clearance in criminal proceedings pending against him.

## SELECT LIST OF 2009

0A@*. Arun Kumar Gupta	02.02.1957
0B@*. Udai Pratap	01.01.1955
1.	Arun Kumar Singh
2.	Vijay Kumar Dixit
2A@& Ajay Kumar Singh	10.01.1954
3.	Gyaneshwar Tiwari
4.	Shiv Sagar Singh
5.	Birendra Bahadur Singh
6.	Ratan Kumar Srivastava
7.	Anil Kumar Jain
8.	Syed Wasim Ahmad
9.	Sunil Chandra Bajpai
10.	Yogeshwar Singh

1	2	3
11.*	Dr. Tehsildar Singh	22.01.1956
12.	Onkar Singh	01.03.1959
13.	Ashok Kumar Shukla	28.09.1956
14.	Govind Agarwal	22.08.1956

@Names at Sl. No. 0A, 0B and 2A have been included as per the second proviso to Regulation 5(5) of the IPS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

\* Names at Sl. No. 0A, 0B and 11 have been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against them.

& Name at Sl. No. 2A has been included in the list provisionally subject to clearance in criminal proceedings pending against him.

2. This Notification is issued in supersession to Government of India's earlier Notification Nos. I-14011/23/2003-IPS.I dated 11.02.2004, I-14011/19/2005-IPS.I(I) dated 10.02.2006, I-14011/15/2007-IPS.I (I) dated 01.07.2008, I-14011/5/2009-IPS.I (I) dated 07.12.2009 and any other relevant Select List Notifications in this regard.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

No. I-14011/10/2012-IPS.I(II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1955, the President is pleased to re-notify the appointment of the following members of the State Police Service of Uttar Pradesh, who already stand appointed and allocated to Uttar Pradesh Cadre of Indian Police Service against the vacancies determined by Government of India for the Review Select Lists of 2001 (vacancies arisen between 01.01.2000 to 31.12.2000), 2002 (vacancies arisen between 01.01.2001 to 31.12.2001), 2003 (vacancies arisen between 01.01.2002 to 31.12.2002), 2004 (vacancies arisen between 01.01.2003 to 31.12.2003), 2005 (vacancies arisen between 01.01.2004 to 31.12.2004), 2006 (vacancies arisen between 01.01.2005 to 31.12.2005), 2007 (vacancies arisen between 01.01.2006 to 31.12.2006), 2008 (vacancies arisen between 01.01.2007 to 31.12.2007), and 2009 (vacancies arisen between 01.01.2008 to 31.12.2008) with effect from the date mentioned against each of their names:—

## SELECT LIST OF 2001

Sl. No.	Name	Date of Appointment
1	2	3
	S/Shri/Smt.	
1.	Lalji Shukla	11.03.2004
2.	Bhola Nath Singh	11.02.2004

1	2	3
3.	Gyan Singh	11.02.2004
4.	Vijay Shankar Singh	11.02.2004
5.	Rajendra Prasad Singh-2	11.02.2004
6.	Kashi Nath Singh	11.02.2004
7.	Raj Bahadur Singh	11.02.2004
8.	Sugriv Giri	07.06.2005
9.	Akhileshwar Ram Mishra	11.02.2004
SELECT LIST OF 2002		
1.	Pramod Kumar Mishra	11.02.2004
2.	Sia Ram Saran Aditya	11.02.2004
3.	Surya Nath Singh	11.02.2004
4.	Bir Bahadur Singh	11.02.2004
SELECT LIST OF 2003		
1.	Deepak Sharma	11.02.2004
2.	Sanjay Srivastava	11.02.2004
3.	Rajesh Kumar Srivastava	11.02.2004
4.	Durga Charan Misra	11.02.2004
5.	Satyendra Veer Singh	11.02.2004
6.	Ram Krishna Chaturvedi	11.02.2004
7.	Rahul Asthana	11.02.2004
8.	Jitendra Sonkar	11.02.2004
SELECT LIST OF 2004		
1.	Smt. Beena Bhukesh	10.02.2006
2.	Om Prakash Sagar	10.02.2006
3.	Rajendra Prasad Chaturvedi	10.02.2006
SELECT LIST OF 2005		
1.	Rajesh Kumar Singh Rathore	10.02.2006
2.	Maiya Deen Karandhar	10.02.2006
3.	Kripa Shanker Singh	10.02.2006
4.	Navneet Kumar Rana	01.07.2008
5.	Prakash Tripathi	10.02.2006
6.	Vijay Kumar	10.02.2006
7.	Jitendra Pratap Singh	10.02.2006
8.	Akramul Haq	10.02.2006

1	2	3
9.	Gholar Prasad Kanaujia	10.02.2006
10.	Vinod Kumar Doharey	10.02.2006
SELECT LIST OF 2006		
1.	Ram Shankar	01.07.2008
2.	Shailendra Pati Tripathi	01.07.2008
3.	Krishna Mohan	10.02.2006
4.	Ram Swaroop	01.07.2008
5.	Ram Bharose	01.07.2008
6.	Devendra Kumar Rai	01.07.2008
7.	Gulab Singh	01.07.2008
8.	Mahesh Kumar Mishra	01.07.2008
9.	Laxmi Narayan	01.07.2008
10.	Rakesh Pradhan	01.07.2008
SELECT LIST OF 2007		
1.	Sanjay Kakkar	01.07.2008
2.	Suresh Chand Pandey	01.07.2008
3.	Ashok Kumar Tandon	01.07.2008
SELECT LIST OF 2008		
1.	Madan Gopal Singh	07.12.2009
2.	Rajendra Singh	07.12.2009
3.	Ashok Kumar Raghav	07.12.2009
4.	Devendra Kumar Chowdhary	07.12.2009
5.	Dalbir Singh Yadav	07.12.2009
6.	Ram Pal-I	07.12.2009
7.	Prem Narayan	07.12.2009
8.	Virendra Kumar Shekhar	07.12.2009
9.	Ajay Mohan Sharma	07.12.2009
SELECT LIST OF 2009		
1.	Arun Kumar Singh	01.07.2008
2.	Vijay Kumar Dixit	07.12.2009
3.	Gyaneshwar Tiwari	07.12.2009
4.	Birendra Bahadur Singh	07.12.2009
5.	Ratan Kumar Srivastava	07.12.2009
6.	Syed Wasim Ahmad	07.12.2009
7.	Sunil Chandra Bajpai	07.12.2009

1	2	3
8.	Yogeshwar Singh	07.12.2009
9.	Onkar Singh	07.12.2009
10.	Ashok Kumar Shukla	07.12.2009
11.	Govind Agarwal	07.12.2009

2. The Re-Notification of the appointments of the officers mentioned in tables under para 1 above is issued in supersession to Government of India's earlier Notification Nos. I-14011/23/2003-IPS.I dated 11.02.2004 & 11.03.2004, I-14011/19/2005-IPS.I(II) dated 10.02.2006, I-14011/15/2007-IPS.I (II) dated 01.07.2008, I-14011/5/2009-IPS.I (II) dated 07.12.2009 and any other relevant Appointment Notifications in this regard.

3. In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Uttar Pradesh Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Uttar Pradesh under sub-rule (1) of the Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Sl. No.	Name	Select List Year
	S/Shri	
1.	Vijay Yadav	2005
2.	Devi Prasad Srivastava	2008
3.	Shiv Sagar Singh	2009
4.	Anil Kumar Jain	2009

4. The appointments of the officers mentioned in the table under para 3 above will take effect from the date of issuance of this Notification.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

No. I-14011/10/2012-IPS.I (III)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 20.12.2012, approved the Select Lists of 2009A, 2010 and 2011, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 12.12.2012, containing the names of the following State Police Service Officers of Uttar Pradesh, towards filling up 10, 39 and 13 respectively substantive vacancies in the Uttar Pradesh Cadre of Indian Police Service :—

## SELECT LIST OF 2009-A

Sl. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
0A@*.	Arun Kumar Gupta	02.02.1957
0B@*.	Udai Pratap	01.01.1955
0C@&	Ajay Kumar Singh	10.01.1954
1*.	Wajeesh Ahmad	13.02.1957
1A@*.	Dr. Tehsildar Singh	22.01.1956
2.	Ram Bahadur	11.02.1955
3.	Udai Shanker Jaiswal	24.08.1957
4.	Sharad Sachan	27.09.1959
5.	Rakesh Chandra Sahu	03.04.1958
6.	Jitendra Kumar Shahi	15.05.1957
7.	Jawahar	11.06.1958
8.	Dr. Shiv Narayan Bharadwaj	01.11.1955
9.	Dr. Umesh Chandra Srivastava	01.07.1957
10.	Dinesh Chandra	30.10.1956

@Names at Sl. Nos. 0A, 0B, 0C and 1A have been included as per the second proviso to Regulation 5(5) of the IPS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

\* Names at Sl. Nos. 0A, 0B, 1 and 1A have been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against them.

&Name at Sl. No. 0C has been included in the list provisionally subject to clearance in criminal proceedings pending against him.

## SELECT LIST 2010

1	2	3
	S/Shri	
0A@*.	Arun Kumar Gupta	02.02.1957
0B@*.	Udai Pratap	01.01.1955
0C@&.	Ajay Kumar Singh	10.01.1954
0D@*.	Wajeesh Ahmad	13.02.1957
0E@*.	Dr. Tehsildar Singh	22.01.1956
1.	Anil Kumar Rai	14.11.1961
2.	Surendra Kumar Verma	18.01.1962

1	2	3
3.	Rajendra Prasad Singh Yadav	10.07.1957
4.	Vijay Bhushan	15.04.1961
5.	Ram Bodh	13.03.1958
6.	Kavindra Pratap Singh	24.08.1962
7.	Sunil Kumar Saxena	15.12.1958
8.	Subhash Singh Baghel	15.05.1961
9.	Rakesh Shankar	08.06.1963
10&	Jai Prakash Singh	25.06.1959
11.	Umesh Kumar Srivastava	05.07.1959
12.	Satyendra Kumar Singh	01.01.1964
13.	Ratan Kant Pandey	10.03.1961
14.	Vikramaditya Sachan	08.08.1958
15*.	Jitendra Kumar Shukla	30.06.1961
16.	Mrigendra Singh	21.05.1959
17.	Piyush Srivastava	22.04.1961
18.	Satya Bhushan Pathak	27.01.1956
19.	Dinesh Chandra Dubey	01.07.1961
20.	Vinay Kumar Yadav	30.06.1962
21.	Hira Lal	04.08.1962
22.	Ram Kishore	20.10.1957
23.	Sri Kant Singh	15.01.1956
24.	Ashok Kumar-II	30.06.1958
25.	Sanjay Kumar-I	30.11.1962
26.	Arvind Sen	13.01.1961
27.	Kailash Nath Mishra	14.08.1957
28.	Shiv Shankar Singh	11.01.1963
29.	Dinesh Pal Singh	31.01.1963
30.	Om Prakash Srivastava	01.01.1959
31.	Kripa Shankar Singh	01.11.1956
32.	Rakesh Singh	07.04.1965
33.	Virendra Pratap Srivastava	06.04.1960
34.	Umesh Kumar Singh	27.04.1959
35.	Rajendra Prasad Pandey	15.08.1960
36.	Rajesh Kumar Pandey	15.06.1961
37.	Raju Babu Singh	02.04.1957
38.	Vishambhar Dayal Shukla	30.05.1959
39.	Ms. Shriparna Ganguly	29.04.1961

@Names at Sl. No. 0A, 0B, 0C, 0D and 0E have been included as per the second proviso to Regulation 5(5) of the IPS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

\* Names at Sl. No. 0A, 0B, 0D, 0E and 15 have been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against them.

& Names at Sl. No. 0C and 10 have been included in the list provisionally subject to clearance in criminal proceedings pending against them.

#### SELECT LIST OF 2011

Sl. No.	Name	Date of Birth
S/Shri		
1.&	Mahendra Pal Singh	01.07.1957
1A.@*	Arun Kumar Gupta	02.02.1957
1B.@*	Udai Pratap	01.01.1955
1C.@&	Ajay Kumar Singh	10.01.1954
1D.@*	Wajeesh Ahmed	13.02.1957
1E.@*	Dr. Tehsildar Singh	22.01.1956
1F.@&	Jai Prakash Singh	25.06.1959
1G.@*	Jitendra Kumar Shukla	30.06.1961
2.*	Bali Karan Singh Yadav	07.08.1959
3.	Smt. Poonam Srivastava	28.12.1963
4.	Salik Ram	31.01.1958
5.	Ram Lal Verma	11.05.1963
6.	Anil Kumar	10.08.1963
7.	Harish Kumar	10.11.1959
8.	Hari Narayan Singh	17.02.1959
9.	Deepak Kumar Bhatt	17.09.1957
10.	Dilip Kumar	28.06.1961
11.	Lalit Kumar Singh	19.01.1959
12.	Rajesh Krishna	30.05.1964
13.	Krishna Bahadur Singh	01.02.1961

@Names at Sl. No. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F and 1G have been included as per the second proviso to Regulation 5(5) of the IPS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

\* Names at Sl. No. 1A, 1B, 1D, 1E, 1G and 2 have been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against them.

& Names at Sl. No. 1, 1C and 1F have been included in the list provisionally subject to clearance in the criminal proceedings pending against them.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

No. I-14011/10/2012-IPS.I (IV)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Uttar Pradesh Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Uttar Pradesh under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

## SELECT LIST 2009-A

Sl. No.	Name	Date of Birth
1	2	3
	S/Shri	
1.	Ram Bahadur	11.02.1955
2.	Uday Shanker Jaiswal	24.08.1957
3.	Sharad Sachan	27.09.1959
4.	Rakesh Chandra Sahu	03.04.1958
5.	Jitendra Kumar Shahi	15.05.1957
6.	Jawahar	11.06.1958
7.	Dr. Shiv Narayan Bharadwaj	01.11.0955
8.	Dr. Umesh Chandra Srivastava	01.07.1957
9.	Dinesh Chandra	30.10.1956

## SELECT LIST 2010

1.	Anil Kumar Rai	14.11.1961
2.	Surendra Kumar Verma	18.01.1962
3.	Rajendra Prasad Singh Yadav	10.07.1957
4.	Vijay Bhushan	15.04.1961
5.	Ram Bodh	13.03.1958
6.	Kavindra Pratap Singh	24.08.1962
7.	Sunil Kumar Saxena	15.12.1958
8.	Subhash Singh Baghel	15.05.1961
9.	Rakesh Shankar	08.06.1963
10.	Umesh Kumar Srivastava	05.07.1959

1	2	3
11.	Satyendra Kumar Singh	01.01.1964
12.	Ratan Kant Pandey	10.03.1961
13.	Vikramaditya Sachan	08.08.1958
14.	Mrigendra Singh	21.05.1959
15.	Piyush Srivastava	22.04.1961
16.	Satya Bhushan Pathak	27.01.1956
17.	Dinesh Chandra Dubey	01.07.1961
18.	Vinay Kumar Yadav	30.06.1962
19.	Hira Lal	04.08.1962
20.	Ram Kishore	20.10.1957
21.	Sri Kant Singh	15.01.1956
22.	Ashok Kumar-II	30.06.1958
23.	Sanjay Kumar-I	30.11.1962
24.	Arvind Sen	13.01.1961
25.	Kailash Nath Mishra	14.08.1957
26.	Shiv Shankar Singh	11.01.1963
27.	Dinesh Pal Singh	31.01.1963
28.	Om Prakash Srivastava	01.01.1959
29.	Kripa Shankar Singh	01.11.1956
30.	Rakesh Singh	07.04.1965
31.	Virendra Pratap Srivastava	06.04.1960
32.	Umesh Kumar Singh	27.04.1959
33.	Rajendra Prasad Pandey	15.08.1960
34.	Rajesh Kumar Pandey	15.06.1961
35.	Raju Babu Singh	02.04.1957
36.	Vishambhar Dayal Shukla	30.05.1959
37.	Ms. Shriparna Ganguly	29.04.1961

## SELECT LIST 2011

1.	Smt. Poonam Srivastava	28.12.1963
2.	Salik Ram	31.01.1958
3.	Ram Lal Verma	11.05.1963
4.	Anil Kumar	10.08.1963

1	2	3
5.	Harish Kumar	10.11.1959
6.	Hari Naryan Singh	17.02.1959
7.	Deepak Kumar Bhatt	17.09.1957
8.	Dilip Kumar	28.06.1961
9.	Lalit Kumar Singh	19.01.1959
10.	Rajesh Krishna	30.05.1964
11.	Krishna Bahadur Singh	01.02.1961

2. The appointments will take effect from the date of issuance of this notification.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC  
GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 12th December 2012

No. 13017/43/2012-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Haryana and Uttar Pradesh, the Central Govt. hereby accords approval for inter cadre deputation of Shri Pankaj Yadav, IAS (HY : 01) from Haryana cadre to Uttar Pradesh cadre for a period of three years from date of assumption of charge or until further orders, whichever is earlier.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 13017/09/2012-AIS-I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Rajasthan and Karnataka, the Central Govt. hereby transfers Shri R. Venkatesh Kumar, IAS (RJ : 10) from Rajasthan cadre to Karnataka cadre on the ground of marriage to Ms. Ragapriya R., IAS (KN : 11).

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 17th December 2012

No. 13017/39/2012-AIS-I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Nagaland and Rajasthan, the Central Govt. hereby transfers Shri Vishwa Mohan Sharma, IAS (NL : 10) from Nagaland cadre to Rajasthan cadre on the ground of marriage to Ms. Sudeep Kaur, IFS (RJ : 10).

S. S. SHUKLA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 17th December 2012

No. 6/2012-E.S. (F. No. A-12026/2/2011-ES Cell)—The President of India is pleased to appoint Ms. Renu Amitabh, IRS (IT-1991) as Additional Director in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) plus Grade Pay Rs. 8,700/- on deputation basis in Financial Intelligence Unit-India, Department of Revenue, with effect from 30.11.2012 (AN) for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

R. N. SINGH, Under Secy.

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 13th December 2012

CORRIGENDUM

No. 2 of 2012 (F. No. A-32011/02/2001-Ad.VI)—In this Department's Notification No. 02 of 2012 (F. No. A-32012/2/2001-Ad.-VI) issued on dated 09 March, 2012, the designation of Shri Ramawatar Verma (85072) may be read as Joint Commissioner of Income Tax instead of Deputy Commissioner of Income Tax.

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 7th December 2012

No. A-12011/01/2012-Admn.-II—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 18/26/2012-EO (SM-I) dated 04.12.2012, the President is pleased to appoint Shri Prabhat Kumar Mishra, IAS (WB : 93) as Joint Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 05 December, 2012 for the balance period of his central deputation of five years i.e. upto 24.05.2014.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

No. A-12011/01/2012-Admn.II—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 18/25/2012-EO (SM-I) dated 04.12.2012, the President is pleased to appoint Dr. (Ms.) Usha Titus, IAS (KL : 93) as Joint Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 05 December, 2012 for the balance period of her central deputation of five years i.e. upto 10.10.2015.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 20th December 2012

No. A-22011/01/2012-Ad.IA—The President is pleased to appoint the following Junior Time Scale level officers of the Indian Economic Service (2011 Batch) in the Ministry



of Finance, Department of Economic Affairs in the Pay Band : 3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- w.e.f 19 November, 2012 (FN) or until further orders:—

Sl. No.	Name	Designation
1.	Shri Syed Zubair Husain Noqvi	Assistant Director
2.	Shri Vivek Chaudhary	Assistant Director

IPSITA MITRA, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 18th December 2012

No. 09/01/2011-DRT (Pt)—The Central Government is pleased to appoint the following officers to the post of Registrar, Assistant Registrar and Recovery Officer in various Debts Recovery Tribunals (DRTs) on deputation basis, in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- and Rs. 6,600/- respectively for a period mentioned against each or until further orders, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name	Post	Posted in (DRT)	Period of deputation From (dd/mm/yy) To (dd/mm/yy)
	Shri/Smt.			
1.	K. Keshav Kumar	Registrar	Chennai-III	05.12.2012 04.12.2015
2.	Amit Roy Chowdhury	Registrar	Cuttack	30.11.2012 29.11.2015
3.	K. Siranjeevalu	Asstt. Registrar	Chennai-III	03.12.2012 02.12.2015
4.	C. B. Daniel	Recovery Officer	Jabalpur	03.08.2012 02.08.2015

RAJIV SHARMA, Under Secy.

No. 9/1/2011-DRT (Pt.)—The President is pleased to appoint the following CSS Cadre officers to the post of Registrar in various Debts Recovery Tribunals (DRTs) in the Pay Band 3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from their date of joining in DRTs as mentioned below upto further orders:—

Sl. No.	Name	Post	Posted in (DRT)	From (dd/mm/yy)
	Shri/Smt.			
1.	K. Gurumurthy	Registrar	Chennai-I	29.10.2012(FN)
2.	Raman Kumar Gaur	Registrar	Delhi-II	01.11.2012(FN)

RAJIV SHARMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF CHEMICAL & FERTILIZERS

##### (DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 10th December 2012

No. A-12011/04/2012-HR.-II—In pursuance of Department

of Personnel & Training's Order No. 04/14/2011-CS-I(D) dated 12 Nov, 2012, the President is pleased to appoint Shri Mukesh Bhardwaj (CSL No. 5109), a regular Under Secretary of Central Secretariat Service, to the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service, in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- on ad hoc basis in the Department of Fertilizers, with effect from the forenoon of 15.11.2012, initially for a period of one year or until further orders, whichever is earlier, subject to the terms and conditions contained in DOPT's aforesaid order.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

#### MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

##### (DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 19th December 2012

No. A-12011/4/2012-Estt.—In pursuance of the DOP&T's Order No. 5/9/2012-CS.I(U) dated 06.12.2012, the President is pleased to appoint Shri D. C. Devgune, a regular Section Officer of CSS in the Department of Consumer Affairs (CSL No. 7722) as Under Secretary Grade-I of CSS in the Department of Consumer Affairs with effect from the forenoon of 06th December, 2012 in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- on purely ad hoc basis for a period upto 31.05.2013 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority etc. in the Grade-I of CSS.

3. The appointment shall be further subject to the final outcome in the O.A. No. 1083/2007 pending before the Central Administrative Tribunal (Principal Bench), New Delhi and also any other Order by any competent court in any of the connected matters apart from the O.A. No. 1083/2007.

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

#### MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

##### (DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 18th December 2012

No. A-12023/01/2011-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Ramesh Golla to the post of Scientist 'C' in Department of Scientific & Industrial Research in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of the 17th December, 2012, consequent upon his selection to the post through a Direct Recruitment process. His appointment will be governed under the New Pension Scheme, Government of India.

2. He will be on probation for a period of one year.

KULDIP KUMAR, Under Secy.

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

The 20th December 2012

New Delhi-110108, the 19th December 2012

No. A-12025/182/2009-CHS.-I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Bhagat Trupti Ashokrao to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Rs. 5,400/- (Grade Pay) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 17.05.2010 until further orders. Dr. (Mrs.) Bhagat Trupti Ashokrao is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Mumbai. Dr. (Mrs.) Bhagat Trupti Ashokrao shall be on probation for a period of two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

No. A-12025/61/2010-CHS.-I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Nalini Kaushik in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 5,400/- PB-3 in a temporary capacity with effect from the forenoon of 18th October 2012 until further orders. Dr. Nalini Kaushik is posted as Medical Officer under CGHS, Delhi. She will be on probation for a period of two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

No. A-12025/236/2009-CHS.-I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rakhi Maheswari in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 5,400/- (PB-3) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 26th September 2012 until further orders. Dr. Rakhi Maheswari is posted as Medical Officer under CGHS, Jabalpur. She will be on probation for a period of two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

No. A-12025/178/2009-CHS.-I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Suchitra Sehgal to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Rs. 5,400/- (Grade Pay) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 27.08.2010 until further orders. Dr. Suchitra Sehgal is posted as Medical Officer under CGHS, Delhi. Dr. Suchitra Sehgal shall be on probation for a period of two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

No. A-12025/104/2010-CHS.-I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Padmini in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 10th May, 2011 until further orders. Dr. Padmini is posted as Medical Officer under CGHS, Delhi. She will be on probation for a period of two years.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &amp; COOPERATION)

New Delhi, the 7th November 2012

No. 32013/01/2012-Estt.I—The President is pleased to appoint the following Section Officers of CSS as Under Secretary in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay of Rs. 6,600/- on purely on 'ad hoc' basis with effect from the forenoon of the date given against their names :—

Sl. No.	Name	Department where was working	C.S.L. No.	Date of appointment
1.	S/Shri/Ms. Bhim Singh	Department of Agriculture & Cooperation	7503	01.11.2012
2.	Ram Kumar	Department of Commerce	7276	02.11.2012
3.	Amresh Kumar Jha	Department of Food and Public Distribution	7172	02.11.2012
4.	Raj Kumar	Ministry of Labour and Employment	7476	05.11.2012

2. The promotions to Grade I (Under Secretary) of CSS are purely on 'ad hoc' basis for a period upto 31.05.2013 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier. The aforesaid ad hoc promotion is subject to the following conditions :—

- The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS.
- Ad hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- The service rendered on ad hoc basis in the Under Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.
- The officers, who have not undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in cadre training plan

for the CSS, will have to undergo the aforesaid training as per nomination made by this Department.

- (v) The ad hoc promotion of officers shall be subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters apart from the OA No. 1083/2007.

SANDEEP KUMAR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

New Delhi, the 4th December 2012

No. 2-15/2010-Fy(Admn)—The President is pleased to appoint Dr. Annada Bhusan Kar to the post of Fisheries Scientist (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) in Fishery Survey of India, Mumbai in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries with effect from 14th September, 2012 (F.N.) in a temporary capacity and until further orders.

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

New Delhi, the 11th December 2012

No. 12-3/2005-Admn.III—On the recommendation of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. B. N. Tripathi to the post of Director, CCS National Institute of Animal Health, Baghpat (U.P.), a subordinate office under Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, in the Pay Scale of Pay Band-4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 10,000/- on short term contract basis with effect from the forenoon of 3rd December, 2012, for a period of five years or till further orders, whichever is earlier.

PARMJIT SINGH, Dy. Secy.

New Delhi, the 19th December 2012

No. 19011/6/2012-Admn.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 5/11/2011-CS.I(U), dated the 26th November, 2012, the President is pleased to appoint the following officers of Central Secretariat Service (CSS) working as Under Secretaries (ad hoc) in this Department as Under Secretaries on regular

basis w.e.f. 01st July of the respective Select List year mentioned against their name :—

Sl. No.	Name	C.S.L. No.	Select List Year
1.	Shri Debabrata Banerjee	6212/1995	2009
2.	Shri S. C. Tamta	6746/2001	2009
3.	Shri K. C. Patra	6760/2001	2009

2. The appointment of the officers to the grade of Under Secretary on regular basis on their inclusion in USSSL-2009, shall be subject to the final outcome in O.A. No. 611/2012 titled "P.S. Bhandari & Others vs. Union of India & Others in terms of CAT, Principal Bench, New Delhi's interim Order dated 24.02.2012, and any other Order by any Competent Court in any of the connected matters.

3. The above officers are free/clear from vigilance angle and they were entitled to hold the post of Under Secretary, as the officers were in CSS cadre as on 01st July their respective Select List Year.

R. S. JAYAL, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION

New Delhi, the 19th December 2012

No. 30-7/2010-Estt—The President is pleased to appoint the following persons as Grade-I (Under Secretary) officers of Central Secretariat Service on regular basis consequent upon inclusion of their names in the Select List Years shown against their names vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/11/2011-CS.I(U) dated 26.11.2012 :—

Sl. No.	CSL No.	Name	Select List Year
1.	6402	Shri V. K. Singh, Under Secretary	2009
2.	6742	Shri Vijay Singh, Under Secretary	2009

2. The appointment of the Officers included in the Select List for the year 2009 to the grade of Under Secretary on regular basis, shall be subject to the final outcome in O.A. No. 611/2012 titled "P. S. Bhandary & Ors. Vs. UoI & Ors. in terms of CAT, PB, New Delhi's interim order dated 24.02.2012 and any other order by any Competent Court in any of the connected matters.

A. PRABHAKARAN, Dir.

#### MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110003, the 12th December 2012

No. A-53011/7/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Khader Sharief, a regular Senior Executive

Assistant in Rajya Sabha as Assistant Private Secretary to Minister of Minority Affairs, Government of India w.e.f. 1st November, 2012.

2. The appointment of Shri Khader Sharief, Assistant Private Secretary to Hon'ble Minister of Minority Affairs is on co-terminus basis with the tenure of the Minister of Minority Affairs or until further orders, whichever is earlier.

3. Shri Khader Sharief, Assistant PS may be paid Deputation (Duty) Allowance at the rate of 5% of basic pay subject to maximum of Rs. 2,000/- p.m. in terms of DoPT's O.M. No. 2/22(B)/2008-Estt. (Pay-II) dated 3rd September, 2008 and O.M. No. 2/23/2008-Estt. (Pay-II) dated 28th May, 2009.

4. This issues with the approval of Minister of Minority Affairs.

MAITREYEE ROY, Dy. Secy.

No. A-53011/7/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Rama Nand, a regular Senior Executive Assistant in Rajya Sabha as Assistant Private Secretary to Minister of Minority Affairs, Government of India w.e.f. 23rd November, 2012.

2. The appointment of Shri Rama Nand, Assistant Private Secretary to Hon'ble Minister of Minority Affairs is on co-terminus basis with the tenure of the Minister of Minority Affairs or until further orders, whichever is earlier.

3. Shri Rama Nand, Assistant PS may be paid Deputation (Duty) Allowance at the rate of 5% of basic pay subject to maximum of Rs. 2,000/- p.m. in terms of DoPT's O.M. No. 2/22(B)/2008-Estt. (Pay-II) dated 3rd September, 2008 and O.M. No. 2/23/2008-Estt. (Pay-II) dated 28th May, 2009.

4. This issues with the approval of Minister of Minority Affairs.

MAITREYEE ROY, Dy. Secy.

No. A-53011/7/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Ashraf Karim, a regular Senior Executive Assistant in Rajya Sabha as Assistant Private Secretary to Minister of Minority Affairs, Government of India w.e.f. 23rd November, 2012.

2. The appointment of Shri Ashraf Karim, Assistant Private Secretary to Hon'ble Minister of Minority Affairs is on co-terminus basis with the tenure of the Minister of Minority Affairs or until further orders, whichever is earlier.

3. Shri Ashraf Karim, Assistant PS may be paid Deputation (Duty) Allowance at the rate of 5% of basic pay subject to maximum of Rs. 2,000/- p.m. in terms of DoPT's O.M. No. 2/

22(B)/2008-Estt. (Pay-II) dated 3rd September, 2008 and O.M. No. 2/23/2008-Estt. (Pay-II) dated 28th May, 2009.

4. This issues with the approval of Minister of Minority Affairs.

MAITREYEE ROY, Dy. Secy.

---

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION  
TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 10th December 2012

No. A.11019/2/2007-Admn.II—Consequent upon his inclusion in the Select List for the Year 2011 of PPS of CSSS cadre of Department of Telecommunications vide DoP&T's OM No. 3/4/2012-CS.II(A) dated 16.11.2012, the President is pleased to appoint Shri P. Jagadesan, PPS (ad hoc) of CSSS of this Department as PPS on regular basis in Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 6,600/- with effect from 16.11.2012.

NIRMALA DEV, Under Secy.

No. 41-10/2011-Admn.-II—The President is pleased to appoint Shri R. J. S. Kushvaha, Joint Wireless Adviser working in Wireless Planning & Coordination Wing/Wireless Monitoring Organisation, Department of Telecommunications as Wireless Adviser in the HAG Pay Band of Rs. 67,000—79,000/- on regular basis w.e.f. 01.12.2012 and until further orders.

NIRMALA DEV, Under Secy.

The 12th December 2012

No. 32014/1/2011-Admn.-II—Consequent upon his nomination to Department of Telecommunications for appointment as Private Secretary of CSSS for the Select List Year-2010 (against Seniority Quota) under the zoning scheme vide DoP&T's OM No. 4/2/2012-CS-II(A) dated 17th July, 2012, the President is pleased to appoint Shri Rajinder Singh (CSL No. 554), PS (ad hoc) of CSSS cadre in DoP&T, as PS of CSSS on regular basis in this Department with effect from 30.11.2012 (F/N).

NIRMALA DEV, Under Secy.

---

MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 27th November 2012

No. 2004/E(GR)/1/5—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Service of

Mechanical Engineering with effect from the dates noted against each :—

Sl. No.	Name	Date of Joining
1.	Gaurav Jha	11.07.2004
2.	Rajiv Kumar	26.06.2004
3.	Rritu Saurabh	26.06.2004
4.	Sushil Chandra	26.06.2004
5.	A. N. Siddiqui	14.07.2004
6.	Himadari Shekhar Patra	26.06.2004
7.	Ahmed Wasi Khan	26.06.2004
8.	Roman Rawat	26.06.2004
9.	Shashi Kiran	26.06.2004
10.	Suman Kumar Tanti	26.06.2004

MAMTA KANDWAL, Jt. Dir. Estt. (GR)  
(Railway Board)

#### MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 21st December 2012

No. A-32012/5/2012-MA—The President is pleased to appoint Commdt. Sanjay Anchawal of Indian Coast Guard as Deputy Director General of Shipping in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- + GP 7,600/- in the Director General of Shipping, Mumbai, on deputation basis for a period of five years with effect from 03.12.2012 (F/N) or until further orders, whichever is earlier.

P. SASIKUMAR, Under Secy.

#### CORRIGENDUM

No. A-12026/3/2006-MA—In supersession to the notification of even no. dated 19.06.2012, the President is pleased to appoint Dr. Amol Bhimrao Kirtane, IRS (IT : 2002) as Deputy Director General of Shipping w.e.f. 04.06.2012 (F/N) for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier.

P. SASIKUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 10th December 2012

No. A-12026/1/2011-E-I(B)—Consequent on inclusion of his name in the Select List of 2011 of Principal Private

Secretary of CSSS vide Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/4/2012-CS-II(A) dated 16.11.2012, the President is pleased to appoint Shri Brij Bhushan Sharma, Private Secretary, presently working as Principal Private Secretary on ad hoc basis in the Ministry of Road Transport & Highways, as Principal Private Secretary of CSSS on regular basis in the same Ministry in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from 04.12.2012.

H. R. MEENA, Under Secy.

The 26th November 2012

No. A-12022/2/2012-E-I—In pursuance of Secretariat of the Appointment Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training's Order No. 1/8/2012-EO(SM-I) dated 01.11.2012, the President is pleased to appoint Dr. (Ms.) Tuk Tuk Kumar, IAS (WB : 1981) as Additional Secretary & Financial Adviser in the Ministry of Road Transport & Highways in HAG Pay Scale of Rs. 67,000—79,000/- (annual increment @ 3%) w.e.f. 16.11.2012 (F.N.).

H. R. MEENA, Under Secy.

#### MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 18th December 2012

No. 21/2012 (F.No. A-32013/15/2012-Adm.-I)—The President is pleased to appoint Shri S. D. Dubey, an officer of the Junior Administrative Grade of the Central Power Engineering (Group A) Service to the Senior Administrative Grade (Chief Engineer) of the same service, in the Scale of Pay of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 10,000/- in the Central Electricity Authority, in an officiating capacity, with effect from the forenoon of the 13th September, 2012, until further orders.

P. P. BOSE, Under Secy.

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 26th November 2012

No. 14/2012 (F.No. 5/7/2009-Admn.)—Consequent upon their inclusion in the Select List of Private Secretary Grade of CSSS for the Select List Year 2010 and their nomination to Ministry of Water resources under the zoning scheme by the Department of Personnel & Training vide O.M. No. 4/2/2012-CS-II (A) dated 17th July, 2012, the President is pleased to appoint the following officers as Private Secretary on regular basis in the Ministry of Water resources with effect from the dates mentioned against

each in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- :—

Sl. No.	Name (S/Shri/Smt.)	CSL No.	Previous Cadre Unit	Date of Joining in Ministry of Water Resources
1.	Litton Soren	1552	Science & Technology	02.08.2012 (F.N.)
2.	Iti Misra	571	Expenditure	22.08.2012 (F.N.)
3.	P. Natarajan	254	Expenditure	31.08.2012 (A.N.)
4.	Vijay Kumar Sharma	256	Expenditure	31.08.2012 (A.N.)
5.	Sarvan Kumar	968	Expenditure	31.08.2012 (A.N.)
6.	Kailash Chandra	685	Power	31.08.2012 (A.N.)
7.	Madhu Bala Bhardwaj	134	Power	31.08.2012 (A.N.)
8.	Sunita Jaluthra	529	I&B	27.08.2012 (F.N.)
9.	B. N. Gandotra	877	I&B	31.08.2012 (F.N.)
10.	Chander Shekhar Chhabra	899	Expenditure	03.09.2012 (F.N.)
11.	Kanchan Bala Madan	844	Posts	04.09.2012 (F.N.)
12.	Sunil Kumar	847	Posts	04.09.2012 (F.N.)
13.	M. K. Sagar	987	Agriculture	04.09.2012 (A.N.)
14.	Rachna Mehta	517	Agriculture	04.09.2012 (A.N.)
15.	Anu Rattan	4	MHA	07.09.2012 (A.N.)
16.	Mahesh Kumar	964	Supply	14.09.2012 (A.N.)
17.	A. P. Verma	854	Food & PD	19.09.2012 (F.N.)
18.	Sunita Thakur	306	IP&P	01.10.2012 (F.N.)
19.	Jagbir Singh	832	Expenditure	01.10.2012 (F.N.)

L. P. SHARMA, Under Secy.

## MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi-110115, the 8th November 2012

No. 1/2(25)/09-FS—The President is pleased to appoint Shri M. Rajamannar to the post of Director, Song & Drama Division, in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) with Grade Pay of Rs. 8,700/- w.e.f. the forenoon of 31st October, 2012 on deputation (short term contract) basis for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

NEERAJ KUMAR, Under Secy. (IIS)

## MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi-110001, the 7th December 2012

No. A-12034/3/2012-Adm.-I—In pursuance of DoP&T's O.M. No. 13/2/2012-EO(MM-I) dated 09.11.2012 and after being relieved by Department of Personnel, Government of Goa w.e.f. 19.11.2012 (AN) vide their Order No. 7/2/99-PER-PF-III dated 16.11.2012, Shri T. Mohan Balakrishnan, IAS (AGMUT : 1996) has reported for duty as Private Secretary to the Minister of State for Labour & Employment w.e.f. 21.11.2012 (AN) after availing joining time from 20.11.2012 to 21.11.2012 (FN).

2. The President is pleased to appoint Shri T. Mohan Balakrishnan, IAS (AGMUT : 1996) as Private Secretary to the Minister of State for Labour & Employment (Shri Kodikunnal Suresh) as the level of Director (PB-4 Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/-) on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or upto 31.05.2015, the date of his retirement from Government Service on superannuation or until further orders, whichever event occurs the earliest.

PAWAN KUMAR, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013